

ASIA PACK LIMITED

CIN: L74950RI1985PLC003275

REGISTERED OFFICE 3rd Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301

1800 120 3699

www.asiapackltd.com

Ref.: APL/SEC/Reg. 47/2021-22

Date: 12th November, 2021

Corporate Relationship Department,

BSE Limited,

25th Floor, P J Towers, Dalal Street,

Mumbai, Maharashtra, India, PIN-400001

Email: corp.relations@bseindia.com, corp.compliance@bseindia.com

Scrip Code: 530899

Dear Sir / Madam,

Subject: Submission of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended 30th September, 2021, published in Newspaper

Ref: Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to above, please find enclosed the copy of newspaper advertisement dated November 12, 2021, which was published in Newspapers Financial Express (in English) and Jai Rajasthan (in Hindi) edition with regard to the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021, duly reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 11th November, 2021.

You are requested to take the same on records, upload at your website & intimate the same to the members of the Stock Exchange.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Asia Pack timited

Name: Ankita Mata

Designation: Company Secretary and Compliance Officer

Membership No.: A56788

Address: 60, Jawahar Nagar, Udaipur, Rajasthan, India, PIN-313001

Mobile No.: 8875992827

Encl.: a/a

Rs. in Lacs except EPS

POSSESSION NOTICE

DCB BANK

Undersigned the Authorised Officer of the DCB Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice under section 13(2) of the said Act, 2002, calling upon the borrowers / co- borrowers as mentioned in column no. 3 to repay the amount mentioned in the said Demand Notice within 60 days from the date of receipt of the

The borrowers and co-borrowers having failed to repay the amount as mentioned in column no. 6, notice is hereby given to them and the public in general that the undersigned has taken possessions of the property as described herein below in column no. 4 in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

Sr. No.	Loan Account	Borrower / Co-Borrower	Date of Demand Notice	Amount Demanded
1	DRHLN0I00496764	Arman And Taniya Naaz	19.04.2021	Rs. 25,64,608.06/-
	scription of Secured A	Assets: Flat No. 62, 1st Flo	or, Cat-lig Pocket	Date of Possession 08.11.2021

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the DCB Bank Limited for the amount mentioned therein and further interest and cost thereon. Date: 12.11.2021

Place: New Delhi Authorized Officer

Karnataka Bank Ltd.

Head Office: Mangaluru-575002 CIN : L85110KA1924PLC001128 Asset Recovery Management Branch Phone: 011-40591567, Ext.240 Mob:9319891680

8-B, First Floor, Rajendra Park, E-Mail : delhiarm@ktkbank.com Pusa Road, New Delhi-110060. Website: www.kamatakabank.com

SALE NOTICE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules. 2002. Notice is hereby given to public in general and in particular to Borrower (s) and Guarantor (s) that

the below described immovable property mortgaged/charged to the secured Creditor, the Symbolic Possession (Open Land) of which has been taken by the Authorised Officer of Kamataka Bank Ltd, the Secured Creditor on 01.08.2019, will be sold on "As is Where is", "As is What is" and "Whatever there is" Basis on 08.12.2021, for recovery of Rs.3,51,83,193.14 Rupees Three Crore Fifty One Lakhs Eighty Three Thousand One Hundred Ninety Three and Fourteen Paisa Only] under PS Overdraft A/c No.560700060000901 along with future nterest from 01.11.2021, plus costs, due to the Karnataka Bank Ltd, East of Kailash Branch, New Delhi, D-59, opp. Sapna Cinema Road, East of Kailash, New Delhi-110065, the Secured creditor from (1) M/s R R Enterprises, Represented by its partners: Mr. Amit Kumar & Mr. Praveen Kumar, At Shop No. C-15, Ground Floor, Omex NRI City, Central Mall, Near Pari Chowk. Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201306, (2) Mr. Amit Kumar S/o Meer Singh, At-13 Khwaipur Neemka, Shahihanpur, Neemka Jewar, Gautam Budh Nagar, Uttarpradesh-203155, (3) Mr. Praveen Kumar S/o Yashpal, At- Chipyana Buzurg, Gautam Budh Nagar, Chipyana, Uttapradesh-201009, (4) Mrs. Madhu Srivastava W/o Rajnikant Srivastava, H.No-348/46, 1st Floor, Near Vardhman International Public School, Sector-46, Sector-16, Faridabad-121002 (5) Mrs. Viroj Kumari @ Viroj Sandhu W/o Rajendra Singh, G-429, Govind Puram, Ghaziabad, Uttarpradesh-201001, being borrowers/guarantors/co-obligants. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

1) All that part and parcel of residential plot bearing no.3121 measuring 322 sq.yds situated in Sainik colony extension part-II, Sector-49, Faridabad, Haryana belonging to Mrs. Madhu Srivastava. Boundaries: East: Other Plot, West: Other Plot, North: Other Plot, South: Road Reserve Price/Upset Price below which the property may not be sold: Rs.1,36,01,000.00 (Rupees One Crore Thirty Six Lakh One Thousand only)

Earnest money to be deposited / tendered: Rs.13,60,100.00 (Rupees Thirteen Lakhs Sixty Thousand One Hundred Only)

(The borrower's / mortgagor's attention is invited to the provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset). (This Notice shall also serve as Notice under Sub Rule (1) of Rule (9) of Security Interest

Enforcement Rules-2002 to the Borrower/Guarantors) For detailed terms and conditions of sale, please refer to link in Karnataka Bank's Website

i.e. www.karnatakabank.com under the head "mortgaged assets for sale". The E-auction will be conducted through portal https://bankauctions.in/ on 08.12.2021 from 11:30

A.M to 12:30 P.M with unlimited extension of 05 minutes. The intending bidder is required to egister their name at https://bankauctions.in/ and get the user ld and password free of cost and get online training on E-auction (tentatively on 07.12.2021) from M/s.4closure, 605A, 6th Floor Maitrivanam, Ameerpet, Hyderabad-500038, Contact Person U. Subbarao, No.040-23836405, nobile 8142000062/63, E-mail: subbarao@bankauctions.in and info@bankauctions.in.

For Karnataka Bank Ltd Place: Delhi Chief Manager & Authorised Officer

Pritika Auto Industries Limited

Regd. Office: Plot No. C-94, Phase-VII Industrial Focal Point, S.A.S. Nagar Mohali Punjab - 160055 CIN: L45208PB1980PLC046738, Phone No. 0172-5008900 Email Id: compliance@pritikaautoindustries.com website: www.pritikaautoindustries.com

EXTRACT FROM THE STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED

		Audited				
Particulars	Q	uarter end	ed	Half Yea	FY ended	
ranticulars	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31,03,2021
Total Income from Operations	8696.36	7623.11	6004.57	16319.47	8319.15	22718.14
Net Profit/(Loss) before Tax, Exceptional items	559.28	704.64	364.39	1263.92	35.76	855.51
Net Profiti(Loss) before tax after Exceptional items	559.28	704.64	364.39	1263.92	35.76	855,51
Net Profit (Loss) for the period after tax	388.45	541.33	265.32	929.78	25.84	587.00
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	196.89	610.81	266.13	807.70	27.89	733.70
Paid up Equity Share Capital	1773.45	1773.45	1773.45	1773.45	1773.45	1773.45
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						10997.11
Earnings Per Share (of Rs. 21- each)* Basic	0.44	0.61	0.30	1.05	0.03	0.66
(for continuing & discontinued operations). Diluted	0.44	0.61	0.30	1.05	0.03	0.66
*EPS is not annualised for the	Quarter an	nd Half Yea	f			
Note 1: Additional Information of	on Standal	one Finan	cial Results	s pursuant	to Reg. 4	7 (1) (b)
Total income from operations	7787.21	6797.11	5305.04	14584.32	7443.72	19799.74
Profit(Loss) before Tax	383.30	570.33	350.65	953.63	82.61	797.26

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) The above results for the quarter and half year ended 30th September 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th November 2021. The Statutory Auditors of the company have carried out a limited review of the aforesaid results in terms of Regulation

267.99 450.77 255.04

258.32 | 357.81 | 255.85 | 616.13 |

33 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The company has only one reportable primary business segment i.e. "Manufacturing of Tractor and Automobile Parts'

The above is an extract of detailed format of unaudited results filed with stock exchange. The full format of quarterly Financial Results and notes are available on website of stock exchanges (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) and on the company's website (www.pritikaautoindustries.com)

By order of the Board For Pritika Auto Industries Limited Place: Mohali Harpreet Singh Nibber, Managing Director Date: 11.11.2021

Profit(Loss) after tax

Total Comprehensive Income for

the period (Comprising Profit / (Loss))

Regd. Office: A-50/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052 ACRYLICS LTD. CIN: L74999DL1983PLC017001

718.76

60.90

62.96

698.11

E-mail: gargacrylics@yahoo.com Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter/ Half Yearly Ended 30th Sept. 2021

					(Rs. in Lacs		
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30-09-2021	Half Year ended 30-09-2021	Quarter ended 30-09-2020	Year ended 31-03-2021		
		(Unaudited)		(Unaudited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations	47123.14	86281.37	32745.14	126425.46		
2	Net Profit before Tax	7103.06	14214.99	-1151.29	1530.21		
3	Net Profit after tax & minority Interest	5288.14	10578.06	-1046.59	1452.19		
4	Total Comprehensive Income after Minority Interest (Comprising Net Profit and Other Comprehensive Income net of tax)	5326.03	10653.84	-1042.07	1603.75		
5	Paid up Equity Share Capital	664.28	664.28	664.28	664.28		
6	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (EPS)	79.61	159.24	-15.76	21.86		
	Basic and Diluted Earning per share (Rs.) (not annualised)	79.61	159.24	-15.76	21.86		

 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for Quarter/Half Yearly ended 30-09-2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website "www.msei.in" and

b) Key Standalone financial information is given below:-

Company's Website "www.gargltd.com"

Particulars	Quarter ended 30-09-2021 (Unaudited)	Half Year ended 30-09-2021 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2020 (Unaudited)	RESIDENCE PROTECTION OF A
Income from Operations	47123.14	86281.37	32745.14	126425.46
Profit Before Tax	7103.06	14214.99	-1150.99	1530.22
Profit After Tax	5288.14	10578.06	-1046.57	1452.19

By order of the Board For Garg Acrylics Limited Sanjiv Garg Managing Director (Din: 00217156)

MONIND LIMITED (Formerly Known as Monnet Industries Limited)

Corporate Office: MONNET HOUSE, 11 Masjid Moth, Greater Kailash Part II, New Delhi - 110048 Regd. Office: Plot No. 216, Sector - C, Urla Industrial Complex, Raipur (Chhattisgarh)-493221

SL		(Quarter end	ed	Half Yea	r Ended	Year ended
No.	Particulars	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
(5)	a l	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	0	0	0	0	0	0
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	0.00	000 000 000 000	1000 2000000000000000000000000000000000	900000000	100000 MOVE CO.	V000-01000
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(47.11)	(46.33)	(42.04)	(93.44)	(83.26)	(171.39)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after	38432500	100000000	2038851W	5000000000	924358	AVE8884
	Exceptional and/or Extraordinary items)	(47.11)	(46.33)	(42.04)	(93.44)	(83.26)	(171.39)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, Exceptional	001 750	81 18	500 300	100 100	62 62	207 713
100	and/or Extraordinary items	(47.11)	(46.33)	(42.04)	(93.44)	(83.26)	(171.39)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising	5,255,000	30.0000004	110000000001	373300030403	FIRMON ROWN VICES	500,000,000
	Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other						
	Comprehensive Income (after tax)]	(47.11)	(46.33)	(42.04)	(93.44)	(83.26)	(171.39)
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- per each)	368.13	368.13	368.13	368,13	368.13	368.13
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown						
900	in Audited Balance sheet of previous year	*	- 3	94	*		(14,250.02)
8	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- each)(for						A 06 64
	continuing and discontinuing operations) (In Rs.)	308250	00207	100000	2020200	100000	11000
	(a) Basic	(1.28)	(1.26)	(1.14)	(2.54)	(2.26)	(4.66)
	(b) Diluted	(1.28)	(1.26)	(1.14)	(2.54)	(2.26)	(4.66)

Place: New Delhi

Date: 11.11.2021

 The above unaudited financial statements have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 11th November, 2021 and then approved by the Board of Directors in its meeting held on 11th November, 2021.

The unaudited results for the guarter and half year ended 30.09.2021 have been subject to a Limited Review by the auditors. Figures for the quarter ended 30th September, 2021 are the balancing figures between the un-audited figures for the quarter ended

30th June, 2021 and the published unaudited year to date figures for the half year ended 30th September, 2021 4) The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half yearly Financial Results is available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and Company's website www.monnetgroup.com. For MONIND LIMITED (Formerly Known as Monnet Industries Limited)

(MAHESH KUMAR SHARMA) WHOLE-TIME DIRECTOR & CFO DIN: 07504637

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office: Unit No 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006 CIN: L51909DL1985PLC020372, Ph: 011-41539140

E-mail ID: limitedatlantic@gmail.com, Website: www.atlantic-commercial.com EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021 (₹ in Lakh, except per share detail)

	Logic attended and	Q	uarter ende	ed	Six month	Year ended	
SI.	Particulars	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	0.31	2.42	0.05	2.73	0.09	4,17
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.38)	1.00	(0.67)	0.62	(2.29)	0.66
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.38)	1.00	(0.67)	0.62	(2.29)	0.66
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.38)	0.75	(0.68)	0.37	(2.31)	0.49
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.38)	0.75	(0.68)	0.37	(2.31)	0.49
6	Equity Share Capital	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50	73.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous period	_				_	47.75
8	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic (in ₹): 2. Diluted (in ₹):	(0.05) (0.05)	0.10 0.10	(0.10) (0.10)	0.05 0.05	(0.32) (0.32)	0.07 0.07

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Financial Results for the second quarter and half year ended 30th September, 2021 are available on the websites of the Stock Exchange (www.msei.in) and on the company's website (www.atlantic-commercial.com).

> For Atlantic Commercial Company Limited Narendra Kishore Gaur

> > Chairman

DIN - 00168265

Place: New Delhi Date: 11.11.2021

TARANGINI INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office: K-37A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station,

New Delhi - 110048 | CIN: L67190DL1982PLC013486 | E-mail ID: tarangini0123@gmail.com **EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS**

FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30,2021

						(Am	ount in INR
		Q	uarter End	ed	Half Yea	r Ended	Year Ended
SI. No.	Particulars	30.09.2021 (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2021 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)
1.	Total income from operations	0	=	2,360,930		2,360,930	3,898,990
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(553,616)	(462,198)	652,168	(1,015,814)	239,960	507,349
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(553,616)	(462,198)	652,168	(1,015,814)	239,960	507,349
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(553,616)	(462,198)	652,168	(1,015,814)	239,960	413,784
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	144	_		_	<u></u>	
6.	Equity Share Capital	31,060,000	31,060,000	31,060,000	31,060,000	31,060,000	31,060,000
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	722		_	_	1 <u>0.2</u> 2	_
8.	Earnings per share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) - - Basic & Diluted (in Rs.):	(0.02)	(0.01)	0.02	(0.03)	0.01	0.01

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For Tarangini Investments Limited

Date: 11.11.2021 Place: New Delhi.

Reserve)as shown in the

previous year

Basic:

Date: 10/11/2021

Earnings Per Share

Audited Balance Sheet of the

(of Rs. 10/- each) (for continuing

and discontinued operations)-

Sd/-Pankaj Khetan (Director) DIN: 01567415

0.55

0.14

0.29

DIN:00221099

Mahaan Foods Limited Regd. Office: M-19, 1st Floor, M-Block Market, Greater Kailash-II, New Delhi-110048

CIN: L15419DL1987PLC350285 Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30-09-2021

(Rs. in Lakhs, Unless Otherwise Stated) Half Year Ended Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30.09.2020 30.09.2021 30.06.2021 30.09.2020 30.09.2021 31.03.2021 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total income from operations 8.98 17.68 21.87 38.32 94.36 12.89 19.22 Net Profit / (Loss) for the period 6.53 (0.30)11.70 6.23 7.92 (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items) Net Profit / (Loss) for the period (0.30)11.70 6.23 19.22 7.92 6.53 before tax(after Exceptional and /or Extraordinary items) 14.36 4.91 19.21 10.18 Net Profit / (Loss) for the period 5.01 (0.10)after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for 5.01 14.36 4.91 19.21 10.18 (0.10)the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] **Equity Share Capital** 350.07 350.07 350.07 350.07 350.07 350.07 Reserves (excluding Revaluation 1458.41

2. Diluted: 0.14 (0.00)0.41 0.14 0.55 0.29 NOTE: The above financial results have been reviewed by the audit committee and taken on record by the board of directors in its meeting held on 10th November, 2021. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the

(0.00)

0.41

0.14

Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the company's website www.mahaanfoods.com. For Mahaan Foods Limited Sanjeev Goyal Place: New Delhi Managing Director

ASIA PACK LIMITED

REGISTERED OFFICE: 3RD FLOOR, MIRAJ CAMPUS, UPER KI ODEN, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA, PIN-313301

CIN: L74950RJ1985PLC003275
Tel.: 1800 120 3699, Email Id: ankita.mata@mirajgroup.in, Website: www.asiapackltd.com Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30 September, 2021

Quarter Ended Half Year Ended Year Ended Sep-21 Jun-21 Sep-20 Sep-21 Sep-20 Mar-21 Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Total Income from Operations 1.20 1.50 2.55 2.70 4.95 14.55 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) 5.20 5.44 11.26 10.64 19.36 17.04 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 5.44 17.04 5.20 11.26 10.64 19.36 9.80 5.52 Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 3.73 1.79 (1.10)12.74 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period 3.33 2.47 (1.17)5.80 12.82 9.91 [after tax] and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 263.74 263.74 263.74 263.74 263.74 263.74 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the 1603.07 revious year) arnings per Share (EPS) (of Rs 10/- each) 0.14 0.07 (0.04) 0.21 0.48 0.37 0.14 0.07 (0.04) 0.21 0.48

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under

Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.asiapackltd.com
2. The above unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2021 have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 11th November, 2021. FOR ASIA PACK LIMITED

Place: Nathdwara Date: 11.11.2021 **PUSHPENDRA JAIN** DIRECTOR / CFO DIN: 03228950

KARVYIII FINANCE

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Corporate Office: Karvy Financial Services Limited 202-205, Enterprise Center, 2nd floor, Near Domestic Airport,

Opp Hotel Airlink, Off Western Express Highway, Vile Parle (East), Mumbai -400 056 Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Karvy Financial Services Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002) and in exercise of the power conferred under

section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice/s. The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise powers conferred on him/her under subsection (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security Interest Enforcement Rules, 2002. The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Karvy Financial Services Ltd., for the amount mentioned in the demand notice and

interest thereon as per loan agreement. The borrowers' attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. Sr Loan Agreement No. Demand Notice Date & Type of Description of the Immovable Properties

No	Name of the Borrower/ Co Borrower	date & Amount	possession Taken	
1.	Loan Agreement :- SL02DLH0000757 1. Gaba Traders, 2. Pankaj Gaba 3. Aruna Gaba, 4. Ashok Gaba, 5. Vaishali Ahirwar All Having Address At K-15, Gali-35 New Govindpura Extn, Krishna Nagar, East Delhi 110051	29th July 2021& Rs. 23,50,653/-	8th Nov 2021 (Symbolic Possession)	All That Piece And Parcel of Property Plot No. K- 15, First, Second and Third Floor with roof, Khasra No. 18/26, New Gobind Pura Extension, Village – Khureji Khas, Illaga Shahdara, Delhi – 110051, admeasuring 28.84 Sqyd and bounded by: North: Other Property South: Gali, East: Gali 15Ft, West: Other Property
			100	Sd/-

Place : Delhi **Authorized Officer** Date : 11th Nov. 2021 KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED



(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002

www.canarabank.com NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (EGM) THROUGH VC/OAVM

[In respect of Election of One Shareholder Director]

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Friday, the 10th December, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with the extant laws to transact the following business:

1. To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government

NOTES:

- Electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all shareholders whose names have appeared in the register of shareholders of the Bank / List of Beneficial Owners furnished by Depositories, NSDL & CDSL as at the close of business hours on the specified date i.e., Friday 05.11.2021 and whose email IDs are registered with respective Depository Participant, Registrar and Transfer Agent (RTA). A copy of the same shall also be available on Bank's website www.canarabank.com, website of Stock Exchanges (BSE/NSE) and on website of evoting agency https://evoting.kfintech.com. The Head Office of the Bank at 112, J C Road, Bengaluru- 560002 shall be deemed to be the venue of the Extraordinary General Meeting.
- To receive the EGM Notices/other communication through e-mail, the shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers to the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA), KFin Technologies Private Limited, Unit Canara Bank, Selenium Tower B, Plot No. 31-32 Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032 at e-mail ID, raju.sv@kfintech.com, if not yet provided. The shareholders holding their shares in Demat accounts are requested to update their e-mail IDs and Mobile No. through their Depository Participant (DP), if not yet updated.
- 3. Those shareholders (Other than the Central Govt.) whose name will appear on the Register of Shareholders / List of Beneficial Owners furnished by NSDL & CDSL as on the Specified Date i.e., Friday, the 05th November, 2021 shall be entitled to participate i.e., nominate, contest and vote in the election of Director from amongst the Shareholders other than the Central Government.
- Shareholders other than the Central Government who are desirous of contesting the election of one Director of the Bank should submit a minimum of 100 valid nomination forms along with other requisite documents/forms, declaration etc. in a sealed envelope superscribing thereon "Canara Bank - Election of Director - December 2021" in person or through Regd. Post Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office 112, J C Road, Bengaluru - 560002 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before 5.00 p.m., on 25th November 2021. The Declaration and Undertaking, Nomination Form and Declaration Form are part of the EGM Notice available on the Bank's website viz. www.canarabank.com.
- 5. The Bank will undertake scrutiny of nominations on next working day after the last date of receipt of nomination. In case only one candidate is found to be Fit & Proper by Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Board / Board in terms of RBI Notification and applicable Government of India Guidelines, he/she shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election / voting and the Extraordinary General Meeting convened solely for the purpose of the election shall stand cancelled. The newly elected director will assume office from the date following that on which he / she is deemed to be elected.
- 6. In the event of more than one Candidate is determined as Fit & Proper by NRC then election will be conducted at the EGM. The remote e-voting facility for the agenda as set forth in the EGM Notice will be available to the shareholders from 09.00 a.m. on Monday, the 06th December 2021 to 5.00 p.m. on Thursday, the 09th December (both days inclusive).
- The manner and process of remote e-voting/voting at/during the EGM for shareholders holding shares in dematerialized mode and physical mode, and also for the shareholders who have not registered their e-mail addresses, have been provided in the EGM Notice. The soft copy of the EGM notice is also available for download on the websites of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com, website of the Bank, i.e. www.canarabank.com, 8. The facility for e-voting will be made available at/during the EGM and Shareholders attending
- the Meeting through VC/ OAVM and who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through the e-voting system at/during the meeting. Please note that once the shareholder has cast his/her vote through remote e-voting, he/she cannot cast or modify the vote at/during the EGM.
- In case of any queries/technical assistance related to e-voting or participating in the EGM through VC/OAVM shareholder members may refer FAQs for members and e-voting user manual for Members available at our RTA's (KFin Technologies Private Limited) website or toll free no 1800 309 4001 or contact Mr. S V Raju, Deputy General Manager, KFin Technologies Private Limited at the following address:

KFin Technologies Private Limited Unit Canara Bank, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032

 The consolidated results of remote e-voting together with the voting held at/during the EGM will be announced by the Bank on its website and will also be informed to the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE.Exchanges i.e. NSE & BSE.

By Order of the Board of Directors

L V Prabhakar

Date: November 11, 2021 Place: Bengaluru Managing Director & CEO

Place: Ludhiana Dated: 11th November, 2021

पंचांग राशिफल



कार्यालय



राजसमन्द मो. 9928045062 9414354031 email ayjyotishratn@ amail.com वेब. vw.jay.jyotish.ratn.ir

१२ नवम्बर, २०२१

कार्तिक शुक्ला नवमी शुक्रवार संवत् २०७८ धनिष्ठा नक्षत्र ध्रुव योग बालव करण कूम्भ चन्द्रमा, शाके 1943 कार्तिक, 21 सू. उ. 6.51 अस्त १७.४७, अक्षय-कृष्माण्ड नवमी।

ठीक चलेंगे, जन-सम्पर्क में वृद्धि होगी तथा शुभ सन्देश मिलने से

वृष- आय के नये स्त्रोत सामने आएंगे, पारिवारिक समस्या का समाधान होगा तथा वाद-विवाद या दौड-धृप के अवसर टलेंगे।

मिथुन- विरोधी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, सावधानी बरतने पर कोई हानि नहीं

होगी तथा किसी के स्वास्थ्य की चिन्ता मिटेगी। कर्क- अर्थ-पक्ष मजबूत नहीं रहेगा, भाई-बन्धुओं का स्नेह-सहयोग नहीं मिलेगा तथ

संतति-सख नहीं रह सकेगा। सिंह- अपने-आप को उत्साहित महसूस करेंगे, व्यर्थ के विवाद या दौड़-धूप का अन्त

होगा तथा विरोधी-पक्ष हानि नहीं पहुंचा सकेगा। **कन्या**- सावधानी बरतने से हानि से बच सकेंगे, आप पर लगे आरोप झुठे साबि

होंगे तथा कोई खोई वस्तु वापस मिल सकेगी। **तुला**- जीवन-साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कहीं मेहमान बन कर जा सकेंगे तथा

विश्चिक- पारिवारिक समस्या का समाधान नहीं होगा, सेहत में सुधार नहीं होगा तथा

अर्थ-पक्ष अनुकूल नहीं रहेगा। **धन्**- स्वजनों का व्यवहार सानुकुल रहेगा, बौद्धिक कार्यों में सफल रहेंगे तथा जीवन

साथी से मन-मुटाव दूर होगा। मकर- विरोधी कमजोर पड़ेगा, ईर्द-गीर्द सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे तथा खोया

हुआ विश्वास पन: प्राप्त कर सकेंगे। **कम्भ**- सज्जन पुरुषों से मिल कर ख़ुश होंगे, कोई लम्बी यात्रा कर सकेंगे तथा अपने कार्य की सफलता से पसन्न रहेंगे।

मीन- शुभ कार्य में खर्च करने की भूमिका नहीं बनेगी, सेहत में आ रही गड़बड़ी दूर नहीं होगी तथा दुर्घटना के अवसर रहेंगे।

बेलगांव में १३ व १४ को स्केटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी आयोजित

निम्बाहेडा, 11 नवम्बर। कर्नाटक के बेलगांव में 13 व 14 नवम्बर को होने वाली स्केटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुधवार को श्री राम स्केटिंग क्लब निम्बाहेड़ा के 6 खिलाडी खाना हुए। कोच निर्मल सोनी ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता के अडरं 13 इनलाईन काव्यसिंह राज, चिरायु मुंदडा अंडर, 13 कुवेज में भूपेन्द्रसिंह पंवार 500 एवं 1000 मीटर रेस में भाग लेंगे। इसी प्रकार अंडर 6 कुवेज में जप्सीदकसिंह, अंडर 5 में गर्वित नवलखा, अंडर 6 में हितीशा सुथार 200 व 300 मीटर में भाग लेंगे।

श्रीराम सुपर २५२ और २७२ से राजस्थान के किसानों की गेहूं उत्पादकता बढ़ी



दिनांक : 12 नवम्बर, 2021

बांसवाडा. 11 नवम्बर। राजस्थान के किसानों ने बताया कि डीसीएम श्रीराम लिमिटेड की युनिट श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स की ओर से पेश किए गए श्रीराम सुपर 252 और 272 गेहं बीज से उनकी उत्पादकता बढ़ी है। श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स ने किसानों की फसल उत्पादकता बढाने के लिए आधनिक एवं अनसंधान-उन्मख प्रोडक्टस विकसित किए हैं। लॉन्च के बाद से ही श्रीराम सुपर 252 और 272 गेहूं बीज राजस्थान के किसानों में बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। 2016 में श्रीराम फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स के विश्वविख्यात गेहूं वैज्ञानिकों द्वारा इन किस्मों को तैयार किया गया है।

श्रीराम सुपर 252 और 272 गेंहू बीज इनकी अनुकूलन क्षमता और बेहतरीन उत्पादकता के चलते किसानों में बहुत लोकप्रिय हैं। पीली रतुआ के प्रति सहनशीलता, कल्लों की संख्या अधिक, बडे-सुनहरे दाने, उपयुक्त फसल की उंचाई और गिरने की समस्या कम होने के कारण ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब और बिहार के किसानों की पहली पसंद बन गए हैं। श्रीराम सुपर 252 अगेती एवं पछेती बवाई के लिए भी उपयक्त हैं। जयपुर के एक अनुभवी किसान ईश्वर शर्मा पिछले कई वर्षों से श्रीराम सुपर 252 की बुवाई कर रहे हैं और वे श्रीराम सुपर 252 से एक किसान, ने श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स

के बेहतर परिणाम से काफी संतृष्ट हैं। उनका कहना है कि श्रीराम सुपर 252 की प्रति बाली में 80-85 दाने पाए गए वहीं अन्य किस्मों में सिर्फ 55-60 दाने प्रति बाली हैं। इसमें मजबत तना होने के कारण फसल संख्या भी ज्यादा है। अधिक उत्पादकता और बेहतर गणवत्ता वाली फसल को देखकर. ईश्वर शर्मा अन्य किसानों को श्रीराम सपर 252 की बुवाई करने की ही सलाह देते हैं। राजस्थान के अन्य किसान श्रीराम सपर 272 गेहूं बीज बोने से भी इसी तरह की सफलता पा रहे हैं। ईश्वरमल यादव, अलवर की ओर से दिए गए एक डेमो देखने के बाद अब अपने खेत में श्रीराम सुपर 272 गेहूं बीज पिछले साल लगाया था। उनके पड़ौसी खेत में अन्य प्रचलित गेहूं किस्म के साथ तुलना करते हुए वे कहते हैं कि श्रीराम सुपर 272 में दानों की संख्या 75-80 दाने प्रति बाली, लम्बी बालियां और अधिक कल्ले हैं, वहीं अन्य किस्म में सिर्फ 50-55 दाने प्रति बाली. छोटी बालियां और कल्लों की संख्या कम है। खराब मौसम होने के बावजूद श्रीराम सपर 272 में गिरने की शिकायत नहीं आई। अन्य किस्म से 2 क्रिटल प्रति एकड़ ज्यादा उपज और 4000 रूपये प्रति एकड अतिरिक्त मनाफा पाकर, ईश्वरजी इस वर्ष भी श्रीराम सुपर 272 गेहूं बीज की ही बुवाई

श्रीराम सपर 252 और 272 गेहं बीज के साथ-साथ, श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स के अन्य प्रोडक्ट जैसे श्रीराम सुपर 231 और श्रीराम सुपर 111 भी पिछले कुछ सालों से अपनी शानदार परफोर्मेन्स के चलते किसानों में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। श्रीराम फार्म सोल्यूशन्स 131 वर्ष पुराने डीसीएम श्रीराम लिमिटेड का एक भाग है।

दें कि कलेक्ट्रेट के सामने निंबाहेडा रोड पर

बडी संख्या में ऑटो अव्यवस्थित रूप से

खडे रहते हैं जो दर्घटना के कारण बन रहे

हैं पूर्व में भी प्रशासन द्वारा पाबंद किया गया

था लेकिन वर्तमान में हाल जस के तस बने

हए हैं जिस पर अभी ऐसी स्थिति है कि

आए दिन यहां दुर्घटनाएं घटित हो रही है

लेकिन प्रशासन भी इस और किसी तरह का

ध्यान नहीं दे रहा जिससे स्वयं कलेक्ट्रेट

चोराया ही दुर्घटना जोन बनता जा रहा है।

मास्क को बनाये दिनचर्या का हिस्सा : आभा गांधी मास्क व वेक्सीन लगाना ही बचाव है




आसपास के क्षेत्र में आमजन को

मास्क वितरित कर समझाइस की गई। क्लब सचिव लायन राजेश बोहरा ने बताया कि इस अवसर पर संभाग 2 की क्षेत्रीय अध्यक्ष लायन आभा गांधी ने कहा कि हाल ही में कोरोना के मामले पनः आने से हमे सावधानी एवम एतिहात की जरूरत है। इसके लिए वेक्सिन एवम मास्क लगाना जरूरी है। मास्क को हमारी दिनचर्या का हिस्सा मानते हुए

सुनीता शमो विप्र सेना जिलाध्यक्ष मनोनीत

चित्तौड़गढ़, 11 नवम्बर। चित्तौड़गढ़ की समाज सेविका सुनीता मुकेश शर्मा को विप्र सेना महिला जिलाध्यक्ष मनोनीत किया।

विप्र सेना के राजस्थान प्रदेशध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मनोनयन पत्र नारी कर बताया कि सुनीता शर्मा विप्र समाज में सक्रिय एवं यशस्वी होने के साथ ही इनके व्यक्तित्व ने संस्थान को लाभान्वित ही नहीं



कुसुम जायसवाल राजस्थान जायसवाल महिला क्लब की जिला महामंत्री मनोनीत

शंभपरा. 11 नवम्बर। शंभपरा निवासी कसम संजय जायसवाल को 🖡 किया गया। जायसवाल क्लब के मुख्य संरक्षक एवं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल महिला क्लब तिलक भामा एवं प्रदेश अध्यक्ष महिला क्लब राजस्थान नीला सुवालका के निर्देशन पर चित्तौड़गढ़ महिला क्लब अध्यक्ष



रूप कला पारेता ने कसम जायसवाल शंभपरा को महिला क्लब जिला महामंत्री मनोज मनोनीत करते हुए क्लब को ओर मजबूत करने हेतु जिम्मेदारी और दायित्व सौंपा।

टारसंस प्रॉडक्टस लिमिटेड का आईपीओ १५ नवंबर को खलेगा

उदयपर, 11 नवम्बर। टारसंस प्रॉडक्टस लिमिटेड (टारसंस या कंपनी) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आईपीओ (ऑफ्र) 15 नवंबर 2021 को खुल रहा है। टारसंस एक भारतीय लैबवेयर कंपनी है, जो बेंचटॉप उपकरण सहित उपभोग की जाने वाली, दुबारा इस्तेमाल में आने वाली और अन्य के डिजाइन, विकास, निर्माण और मार्केटिंग में लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल अनुसंधान संगठनों, अकादिमक संस्थानों, दवा कंपनियों, अनुबंध अनुसंधान संगठनों (सीआरओ), नैदानिक कंपनियों और अस्पतालों (स्रोतः प्रॉस्ट एंड सुलिवन रिपोर्ट) के विभिन्न प्रयोगशालाओं में किया जाता है। 2 रुपये के फेस वैल्यु वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ऑफ्र का प्राइस बैंड 635 रुपये से 662 रुपये पति शेयर के बीच रखा गया है। बोली न्यनतम 22 इंकिटी शेयरों के लिए लगाई जाएगी और फिर इसके बाद की बोली 22 शेयरों के गुणक में होगी। इस ऑफर में टारसंस प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 2 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिसमें 1,500 मिलियन रुपये तक का प्रेरा इश्यू शामिल है। ऑपर पॉर सेल के तहत संजीव सहगल द्वारा कुल 390,000 इक्तिटी शेयर रोहन सहगल (संजीव सहगल और रोहन सहगल दोनों एक साथ प्रोमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स*) द्वारा 310,000 इक्विटी शेयर और क्लियर विजन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड (इनवेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर) द्वारा 12.500.000 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कलक्ट्रेट पर पीछे से आये ऑटो ने बाइक को टक्कर मारी, महिला को आई चोटें



कलेक्टर चौराहा इन दिनों अव्यवस्थित यातायात के चलते दुर्घटना जॉन बनता जा रहा है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और

तहसील की ग्राम पंचायत पिपालिया के

जॉखम बांध से नहरों के लिए 12 नवम्बर से छोड़ा जावेंगा सिंचाई पानी,

रबीफसलों के लिए १६ हजार ७०८ हैक्टर में मिलेंगा पानी

बता दें कि बुधवार को कोर्ट से निकलकर बाजार की तरफ जा बहनों को पीछे से आए एक ऑटो ने जोरदार

हआ शिविर में

नामातंरण के 63.

खात विभाजन 7.

खाताशुद्धिकरण

विधिक

टकर मार दी जिसके बाद बाइक पर बैठी महिला को चोटें आई यातायात पुलिस ने ऑटो को वही पकड़ लिया जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई।

हाथ निस्तारण किया गया। शिविर में दोपहर

पलिस ने तरंत ऑटो को रुकवा लिया और एक तरफ खड़ा करवाया इस दौरान काफी पिपालिया में आयोजित शिविर में पहुंचें जिला कलेक्टर सुनी समस्याएं

शहर में बाजार की तरफ जा था जिनके

पीछे बाइक पर बहन गीताबाई बैठी थी इस

टकर मार दी जिससे वह गिर गए और

महिला को हाथ और पैरों में चोटें आई

आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई

तो वही कलेक्ट्रेट पर तैनात यातायात

को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए शिविर में उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक. प्रधान हकरीदेवी मीणा. विकासअधिकारी

की। बैठक में जलसंसाधन विभाग के

अधिशाषी अभियंता भगवानसिंह करदम,

उपजिला प्रमुख सागरमल बोहरा, उपखंड

अधिकारी रामचंद्र खटीक, प्रधान

हकरीदेवी मीणा, धनश्यामपुरी, पूर्वप्रधान

केसरिसंह राणावत, प्रकाशचंद्र कोठारी,

देर सांय किया छिड़काव

धरियावदः 11 नवम्बर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से बचाव के तहत गुरूवार देर सांय नगर के प्रमुख मोहगों एवं बाजारों में फोबिंग मशीन के जरिए धुंआ कर छिडकाव किया गया। खंडचिकित्सा अधिकारी एसके जैन के निर्देशन में छिडकाव टीम ने इस दौरान नगर के निचलाबाजार, कुम्हारवाडा, सोनी मोहगा, निचली बस्ती तथा जलभराव वाली चिन्हित जगहों पर प्रमुखता से

ज्योति मित्र के माध्यम से संभाग में बढ़ रहा है नेत्रदान,लगातार तीसरा नैत्रदान $^{+}$

भतीजे के सहमित पर सम्पन्न हुआ,चाचा का नैत्रदान, शव-यात्रा निकलने से ठीक पहले संपन्न हुआ नेत्रदान संपन्न हए। इसी क्रम में कल मोहन टॉकीज

फाउंडेशन के संभाग स्तरीय नैत्रदान -कता अभियान के तहत पुरे हाडोती में करीब 10000 से ज्यादा ज्योति मित्र नेत्रदान के कार्य में बहत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि ज्योति मित्रों के माध्यम से नेत्रदान का प्रतिशत पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढा है।

बीते माह अक्टबर में 42 नेत्र संस्था

के माध्यम से प्राप्त हुए थे, इनमें से

रोड निवासी श्री लक्ष्मण दास जी राजानी । उनके निधन की सूचना शहर के सभी लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर आने लगी। संस्था के ज्योति मित्र त्रिलोकचंद

नैनवानी व हेमंत अजवानी को भी यह

शोक संदेश मिला, जिसमें 1 घंटे बाद ही शव यात्रा निकलने का जिक्र था । समय कम था तो, उन्होंने तुरंत ही नेत्रदान के

के कार्य के लिये पार्थिव शव को किसी अस्पताल में ले जाना पड़ेगा या नेत्रदान की प्रक्रिया में

समझाइश

प्रारंभ कर दिया ।

परिवार के लोगों को

शंका थी कि नेत्रदान

ज्यादा समय लगेगा.इस कारण से उन्होंने नेत्रदान के बारे में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई

करना

आयड कलंदरी मस्जिद में जश्ने गौसुलवरा मनाया

रब की बारगाह में अपने गुनाहों की हमेशा तौबा करते रहे : कादरी मियां

कलंदरी (छीपा) मस्जिद में जश्ने गौसुलवरा मनाया गया। जश्न में मेहमाने खुसुसी के तौर पर अल्हाज सैय्यद डॉ. जलालद्दीन अशरफ अशरफी जिलानी (कादरी मियां), किछोछा शरीफ व जयपुर से नाअतख्वां इमरान जयपुरी ने शिरकत

नमाजे ईशा आयोजित जरुने गौसुलवरा की शुरूआत कुरआन की तिलावत से हुई। इसके बाद मकामी औलमा हाफिज शाहीद रजा ने नातिया कलाम पेश किया। इसके बाद जयपुर से पाक (र.अ.) व ख्वाजा नवाज की शान में कलाम पेश किए। रात 11 बजे कादरी मियां की तकरीर हुई। जिसमें उन्होंने लोगों से अपने गुनाहों की तौबा करते रहे व गौसे-ए-

पाक (र.अ.) के बताए रास्ते पर चलने की ताकीद की। तकरीर के दौरान उन्होंने लोगों को ताकीद की कि आप रोज दो मिनट निकाल आंखे बंद कर

बारे में सोचे और जहां गुनाह हुए उसकी तौबा रब की बारगाह में तलब करें। उन्होंने

कहा कि हमें हमेशा तौबा करते रहना

एशिया पैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः तृतीय तल, मिराज परिसर, ऊपर की ओडन, नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान, भारत, पिन–313301 CIN: L74950RJ1985PLC003275

टेलीफोन नंबर: 1800 120 3699, ई—मेल: ankita.mata@mirajgroup.in, वेबसाइट: www.asiapackItd.com 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिकी के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सारांश

	€ 600 a \$400							
विवरण		माप्त तिमार्ह	ì	समाप्त अ	माप्त अर्द्धवार्षिकी बर-21 सिताबर-20 क्रेहित अंगकेसित 70 4.95 7.64 19.36 7.64 19.36 7.64 19.36 7.64 19.36 7.64 12.82	समाप्त वार्षिव		
	सितम्बर-21	जुन-21	सितम्बर-20	सितम्बर-21	सितम्बर-20	मार्च-21		
	अंनकेक्षित	अंनकेक्षित	अंनकेक्षित	अंनकेक्षित	अंनकेक्षित	अंकेक्षित		
परिचालनों से कुल आय	1.20	1.50	2.55	2.70	4.95	14.55		
अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, आपवादिक और / या असाधारण मदो से पूर्व)	5.20	5.44	11.26	10.64	19.36	17.04		
अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ / (हानि) (आपवादिक और / या असाधारण मदो के बाद)	5.20	5.44	11.26	10.64	19.36	17.04		
अवधि के लिए कर उपरांत शुद्ध लाभ / (हानि) (आपवादिक और / या अलावारण मदो के बाद)	3.73	1.79	(1.10)	5.52	12.74	9.80		
अवधि के लिए कुल व्यापक जाय (अवधि के लिए लाम (हानि) (कर उपरांत) तथा जन्य व्यापक आय (कर उपरांत) सहित,	3.33	2.47	(1.17)	5.80	12.82	9.91		
समता अंश पूँजी	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74	263.74		
संचय (पुनर्मूत्यांकन संचय को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र में दिखाए गए अनुसार	-			963	12-	1603.07		
प्रति अंश अर्जन (ईपीएस) (रु 10/– प्रत्येक)								
मूल	0.14	0.07	(0.04)	0.21	0.48	0.37		
तनुकृत	0.14	0.07	(0.04)	0.21	0.48	0.37		

. - उपरोक्त परिणाम, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षा) नियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहर स्टींक एक्सचेजों में दाखिल त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। देमासिक/ अर्द्धवार्षिक वित्तीय परिणामें के पूर्ण प्रारूप पर्टोंक एक्सचेंक को वेबसाइट स्थाफ whoseloida.com और कंपनी को वेबसाइट स्थाफ Masiapacklid.com पर उपलब्ध है 2, 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त उपरोक्त त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक के अनअंकंक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा

की गई है तथा 11 नवंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है । स्थान: नाधद्वारा दिनांक: 11.11.2021

बैठक में काश्तकारों ने कहा टेल काश्तकारों को भी मिले पर्याप्त पानी, खादबीज यूरिया की खुली लूट का मामला भी उठाया तथा विभाग से इस ओर ध्यान देने की मांग

धरियावद, 11 नवम्बर। रबीफसलों से नहरों के लिए सिंचाई पानी को लेकर गुरूवार को नगर के पुरानी कॉलोनी स्थित जॉखम खंड के कार्यालय परिसर में जलवितरण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिला कलेक्टर प्रकाशचंद्र शर्मा की अध्यक्षत्ता एवं धरियावद विधायक नगराज मीणा के मख्यअतिथ्य में आयोजित बैठक में काश्तकारों एवं जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मित से जॉखम बांध से नहरो के लिए 12 नवम्बर शुक्रवार से पानी छोडे जाने का निर्णय लिया गया। इस बार

काश्तकारों को 97 दिन नहरों के जरिए पानी मिलेंगा जिसकी धोषणा जिला कलेक्टर शर्मा द्वारा की गई। बैठक में उपस्थित काश्तकारों ने टेल के काश्तकारों को पर्याप्त पानी देने, क्षतिग्रस्त टुटी फूटी नहरों से सिचाई पानी में आने वाली दिक्कते, अवैध दोहन रोकने, नहरों माईनर पर किए अतिक्रमण पर कार्यवाही, क्षतिग्रस्त नहरों की पुख्ता मरम्मत, साफ सफाई. टेल के काश्तकारों को प्राथमिकत्ता के आधार पर पानी देने आदि मांगें काश्तकारों ने उठाई। बैठक में नहरों से

सिचाई पानी के अलावा मुख्य रूप से धरियावद में खादबीज, युरिया के नाम पर मची लुट एवं बिना बिल माल देने का मामला जोरशोर से उठाया जिसपर जिला कलेक्टर ने मामले पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इससे पहले आयोजित बैठक में बोलते हुए धरियावद विधायक नगराज मीणा ने म्बोधन में जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों से फूल गेज में पानी छोडे जाने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि किसान हमारे लिए देवता हैं अन्न पैदावार करने की

काश्तकारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी मांगों को प्राथमिकता से पुरा किया जावें। बैठक में जिला कलेक्टर शर्मा ने अधिकारियों से नहरों में पानी वितरण के दौरान किसानों की समस्याओं का दिए साथ ही बैठक के दौरान उठी मांगों एवं समस्याओं क निराकरण के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में मौजूद काश्तकार थावरचंद सहित अन्य ने जिला कलेक्टर शर्मा से मांग करते हुए

आदि मौजद थें। इस प्रकार मिलेंगा नहरों से पानी: जलवितरण समिति की बैठक में किसानों एवं काश्तकारों की आम सहमति से 12 नवम्बर शक्रवार से जॉखम बांध से दाई एवं बाई मुख्य नहरों के जरिए काश्तकारों के लिए नहरों से पानी छोडा जावेंगा। इस बार काश्तकारों को 97 दिन पानी मिलेंगा।

बांगरेडा घाटा में आयोजित शिविर में मंत्री आंजना के साथ पहुंचे संभागीय आयुक्त



ांगरेडा घाटा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राज्य में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने भाग ले उपस्थित ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कई लाभार्थियों को पट्टा पत्र सौंपे।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री आंजना के साथ संभागीय आयुक्त राजेन्द्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा. उपखण्ड अधिकारी चंद्रशेखर भण्डारी. पंचायत समिति प्रधान बगदीराम धाकड. परुषोत्तम लाल झंवर, पंचायत समिति सदस्य प्रहलाद धाकड़ एवं सरपंच रतनलाल धाकड़ आदि मौजूद रहे।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, खण्ड उदयपुर (प्रथम) जिला- उदयपुर (राज.) क्रमांक : निविदा/2021-22/54

ई-निविदा-सूचना संख्या ३/२०२१-२२

पंचायत समिति-बड्गांव की ग्राम पंचायत-कविता, रामा और लखावली के ग्राम-घसियार, झिण्डोली एवं लखावली में मिनी परकोलेशन टैंक (MPT) निर्माण कार्य के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना से 82 कार्य अनमानित रापशि रू. 48.03 लाख का सम्पादन करने हेत उपयक्त श्रेणी के सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन एवं अन्य विभाग में पंजीकृत संवेदकों से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाइट <u>www.dipronline.org</u>, www.sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा दिनांक 04.11. 2021 प्रात: 11 बजे से 15.11.2021 को सांय 6.00 बजे तक वेबसाइट पर <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> से डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती (सुधीर तिवारी)

UBN: WSC2122WS0B01010

अधिशाषी अभियंता जलग्रहण विकास एवं भ-संरक्षण. खण्ड उदयपुर (प्रथम) जिला-उदयपुर (राज.)

जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अपने कारोबार की शुरुआत के 100 हफ़्ते के भीतर एक महीने में 100 करोड़ रुपये की बिक्री के आंकड़े को पार किया

उदयपुर, 11 नवम्बर। पिछले कुछ बिक्री (जेएसडब्ल्यू पेंट्स की 100 में आंकड़े को पार करने के अपने लक्ष्य को वृद्धि तथा ग्राहको द्वारा पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से, भारत में सबसे अधिक पर्यावरण-अनुकूल पेंट्स का निर्माण करने वाली एवं 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्ति वाले जेएसडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा, जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने अक्टूबर

हिनों में अर्थव्यवस्था में सुधार, मांग में 100 उपलब्धियां) के आंकडे को पार किया। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस प्रकार जेएसडब्ल्यू पेंट्स सर्वाधिक तेज गति से यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पेंट कंपनी बन गई है। 100 करोड़ रुपये मासिक बिक्री को सफ्लतापूर्वक पूरा करने के बाद,जेएसडब्ल्यू पेंट्स वित्त-वर्ष 22

हासिल करने के लिए मजबूती से आगे बढ रहा है। वित्त-वर्ष 22 की पहली छमाही में, कंपनी ने साल-दर-साल के आधार पर लगभग 120 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के डेकोरेटिव बिजनेस के आकार में तीन गुना की बढ़ोतरी हुई है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने देश भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है।

2021 में 100 करोड़ रुपये की मासिक में 1,000 करोड़ रुपये के राजस्व के संगीत प्रेमियों का मनमोहा वीणा वादन ने



गत और दुरुत लय की बंदिश की अति सुंदर प्रस्तृति देकर श्रोताओं का मन मोह लिया । उन्होंने बताया कि राग

जोगेश्वरी भारत रत्न पंडित रविशंकर द्वारा राग जोग एवं राग रागेश्री के सम्मिश्रण से बनाई गई है। तत्पश्चात पंडित सलिल भट्ट ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कुछ प्रमुख रागों में

कहा कि संगीत के महारथी द्वारा इन

ग्रामी अवॉर्ड से सम्मानित पद्मभूषण पंडित विश्वमोहन भट्ट, अध्यक्ष उदयपुर शहर के उद्योगपति डॉ जे के तायलिया, विशिष्ट अतिथि नगर के प्रसिद्ध चित्रकार एवं संगीत प्रेमी दिनेश कोठारी थे।इस कार्यक्रम में डॉ.हर्षित वयर एवं डॉ. हर्षिता वयर की संगीत मय रचित दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस कार्यालय के अधीन

DIPR/C/11327/2021

उदयपुर, 11 नवम्बर। महाराणा

क्ंभा संगीत परिषद उदयपुर की ओर से कुम्भा सभागार में आज आयोजित मासिक संगीत गोष्ठी में कलाकार पंडित सलिल भट्ट के वीणा वादन की प्रस्तुति संदर रचनाएं एवं लोकधून की प्रस्तृति 📙 हुई। भट्ट ने मोहन वीणा पर राग जोगेश्वरी देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।उन्होंने

में आलाप, जोड़, झाला,

खबसरत रागों को भावी पीढी को ही चलन में लाना होगा। तबले पर हिमांशु महंत ने शानदार संगत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में